



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 कार्तिक 1944 (श10)  
(सं0 पटना 889) पटना, मंगलवार, 25 अक्टूबर, 2022

श्रम संसाधन विभाग  
(श्रम पक्ष)

कार्यालय आदेश  
18 अक्टूबर 2022

सं० 2/बी0एस0सी0ई01-17/2021-56/श्र0सं0—प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित केन्द्रीय अनुकम्पा समिति की दिनांक-10.06.2022 को आहूत बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक-9477, दिनांक-10.06.2022 द्वारा स्व0 राजदेव प्रसाद, भूतपूर्व सर्विस बॉय, बिहार सचिवालय भोजशाला, श्रम संसाधन विभाग, पटना के आश्रित पुत्र-श्री राम कुमार की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर सीधी भर्ती से भरे जाने वाले ग्रेड पे रू0 1800/- (पुनरीक्षित वेतनमान का वेतन स्तर-1) के पद पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की अनुशंसा की गई है।

प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित केन्द्रीय अनुकम्पा समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर श्री राम कुमार को समूह-घ', वेटर के पद पर पुनरीक्षित वेतनमान 18,000-56,900/- में (लेवल-1 मूल वेतन रू0 18,000/-) में समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य भत्ते सहित प्रभार ग्रहण करने की तिथि से नितान्त अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुए बिहार सचिवालय भोजशाला, पटना में पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री राम कुमार की जन्म तिथि-01.01.1979 है।

3. इनकी नियुक्ति नितान्त अस्थायी होने के कारण बिना पूर्व सूचना के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

4. श्री राम कुमार को इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वे मृत सरकारी सेवक के आश्रितों का भरण-पोषण हेतु पूर्णतः जिम्मेवार होंगे। यदि उनके द्वारा मृत सरकारी सेवक के आश्रितों का भरण-पोषण में किसी प्रकार की त्रुटि की जायेगी तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कारण-पृच्छा प्राप्त कर आपकी सेवा समाप्त की जा सकेगी। शपथ-पत्र में इस बात का भी उल्लेख होगा कि अपने उत्तरदायित्व की अवहेलना करेंगे तो उनकी उपलब्धियों का एक अंश काटकर मृत सरकारी सेवक के आश्रितों को देने का अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी का होगा।

5. श्री राम कुमार को योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. नव पदस्थापित स्थान पर योगदान देने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।
7. श्री राम कुमार द्वारा इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि उनके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई मुकदमा विचाराधीन लंबित नहीं है, जिसमें उन्हें मृत्यु दण्ड या 07 वर्षों से अधिक अवधि का कारावास की सजा होने की संभावना हो अथवा उक्त वाद के निस्तार होने पर आवेदक को छः माह अथवा उससे अधिक का दण्ड नहीं दिया गया हो।
8. श्री राम कुमार को बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-19 के प्रावधानों के तहत विहित प्रपत्र में चल-अचल सम्पत्ति का विवरण योगदान के समय प्रस्तुत करना होगा।
9. मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी/गैर सरकारी सेवा में नियोजित नहीं है, का प्रमाण-पत्र देना होगा।
10. श्री राम कुमार को विवाह में तिलक-दहेज न लेने और न देने का भी शपथ-पत्र देना होगा।
11. श्री राम कुमार पर नई अंशदायी पेंशन योजना (वित्त विभाग का संकल्प सं0-2469 दिनांक 17 नवम्बर, 2005, संकल्प सं0-1964, दिनांक 31.08.2005 एवं 768, दिनांक- 03.07.2007) प्रभावी/लागू होगा।
12. श्री राम कुमार आदेश निर्गत की तिथि से 15 (पन्द्रह) दिनों के अंदर निश्चित रूप से पदस्थापित कार्यालय में योगदान करेंगे। निर्धारित अवधि में योगदान नहीं करने अथवा अवधि के विस्तार हेतु साक्ष्य सहित आवेदन नहीं करने की स्थिति में इनकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी।
13. भविष्य में यदि जानकारी प्राप्त होगी कि आवेदक के द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई भी प्रमाण-पत्र/शपथ-पत्र/घोषणा गलत है या उनके द्वारा तथ्य को जानबूझकर छुपाया गया है या उनके द्वारा अनुकम्पा से संबंधित सेवा शर्तों की अवहेलना की जा रही है तो उन्हें तत्क्षण सेवा से हटा दिया जायेगा।
14. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-2082 दिनांक-01 अप्रैल, 2003 के प्रावधानों के तहत प्रशासनिक कार्यहित में राज्य स्तरीय राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ आदेश दिया जाता है।

आदेश से,  
अरुण कुमार ठाकुर,  
श्रमायुक्त।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 889-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>.